

नई दिल्ली।  
दिनांक .....

### आवेदन पत्र

एन.सी.ई.आर.टी नई दिल्ली में लिपिक पदों के रिक्त स्थानों को भरने के लिए रोजगार समाचार में विज्ञापन आया है, उसका हवाला देते हुए सचिव के नाम आवेदन पत्र लिखिए।

सेवा में,  
सचिव महोदय,  
एन.सी.ई.आर.टी  
नई दिल्ली।

विषय – लिपिक पद की नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र।

महोदय,

निवेदन है की साप्ताहिक पत्र रोजगार समाचार दिनांक 21/11/88 के विज्ञापन के अनुशार लिपिक पद हेतु आवेदन पत्र प्रेषित हैं।

नाम : शशांक शर्मा

पिता का नाम : श्री वि. के. शर्मा

जन्म तिथि : बी -365, प्रेम नगर

शैक्षणिक योग्यता:

कक्षा	विद्यालय	बोर्ड	उत्तीर्ण	प्राप्तांक	विषय
10	रा.स.सही.उ.	सी.बी.एस.ई	2001	305/500	हिन्दी, गणित, अंग्रेजी
12	सी.बी.एस.ई	सी.बी.एस.ई.	2003	295/500	हिन्दी, गणित, अंग्रेजी

विशेष:

1. मुझे टंकण में विशेष कुशलता प्राप्त हैं
2. प्रकाशन विभाग में कार्य करने का लगभग दस माह का अनुभव प्राप्त है जिसे मैं संलग्न कर रहा हूँ। अतः अपेक्षा करता हूँ कि साक्षत्कार हेतु अवसर प्रदान करेंगे।

सधन्यवाद

भवदीय

शशांक शर्मा

दिनांक 18/11/20

1. कक्षा दस का प्रमाण पत्र
2. कक्षा बारह का प्रमाण पत्र
3. अनुभव प्रमाण पत्र
4. चरित्र प्रमाण पत्र

## संपादक को पत्र

प्रश्न – किसी प्रख्यात समाचार पत्र के संपादक के नाम पत्र लिखाकर रेल आरक्षण व्यवस्था में हुए सुधार की प्रशंसा कीजिए।

उत्तर-

संपादक,

नवभारत टाइम्स

नई दिल्ली

दिनांक .....

विषय : रेल आरक्षण की नई व्यवस्था

महोदय,

मैं आपके लोकप्रिय दैनिक समाचार पत्र के माध्यम से रेल आरक्षण में आए सुधार की प्रशंसा करना चाहता हूँ ताकि इसका लाभ सभी यात्री उठा सकें।

रेलवे ने ई-टिकटिंग व्यवस्था लागू कर घर बैठे कंप्यूटर पर रेल टिकटों का आरक्षण करना आरम्भ कर दिया है इससे आरक्षण कार्यलय जाने और लम्बी लाइनों के झंझट से रहत मेला हैं। तथा काला बाजारी को भी विराम मिलेगा।

धन्यवाद सहित।

भवदीय

अभय सिंह

सयोजक , साहिबाबाद।

## अनौपचारिक पत्र

प्रश्न – छात्रावास में रहने वाले छोटे भाई को एक पत्र लिखिए जिसमें योग एवं प्रन्यम का महत्व बताया गया हो।

ए-32//6 , नविन नगर,

दिल्ली।

दिनांक .....

प्रिय अनुज,

शुभ आशीर्वाद ।

तुम्हारा पत्र मिला। पत्र से प्रतीत होता ही छात्रावास में रहकर तुम कुछ अस्वस्थ से रहने लगे हो। इसका उपाय यह है कि तुम प्रतिदिन योग और प्राणायाम का अभ्यास करो। योग से शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं प्राणायाम प्राणवायु को सुचारू रूप से पूरे शरीर में संचरित करता है। तुम टी.वि पर बाबा रामदेव का योग कार्यक्रम देखकर इस क्रिया को प्राय 5-6 बजे के समय में किया करो जिससे तुम्हारा स्वस्थ अच्छ रहेगा और तुम इसे अपने जीवन का दैनिक हिस्सा बनालो।

मैं आशा करता हूँ कि तुम पूर्णतः स्वस्थ हो जाओगे।

तुम्हारा शुभ चिन्तक

रमेश वर्मा